

## Ascension St. Vincent

### वित्तीय सहायता नीति

10/01/2025

#### नीति/सिद्धांत

इस अनुच्छेद के नीचे सूचीबद्ध संगठनों (जिनमें से प्रत्येक “संगठन” है) की नीति है कि वे संगठन के परिसरों में आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने हेतु सामाजिक रूप से न्यायोचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करेंगे। यह नीति विशेष रूप से उन मरीजों के लिए वित्तीय सहायता पात्रता को संबोधित करने के लिए बनाई गई है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और जो संगठन से देखभाल प्राप्त करते हैं। यह नीति Ascension St. Vincent के अंतर्गत निम्नलिखित संगठनों में से प्रत्येक पर लागू होती है:

*St. Vincent Fishers Hospital, Inc. d/b/a Ascension St. Vincent Fishers*

1. सभी वित्तीय सहायता व्यक्तिगत मानव गरिमा और सामूहिक हित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सम्मान को दर्शाएगी, गरीबी में रहने वाले और अन्य कमज़ोर व्यक्तियों के प्रति हमारी विशेष चिंता और एकजुटता को प्रकट करेगी, और वितरणात्मक न्याय और संसाधनों के ज़िम्मेदार प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाएगी।
2. यह नीति संगठन द्वारा प्रदत्त सभी आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल पर लागू होती है, जिसमें प्रयुक्त चिकित्सीय सेवाएं और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य शामिल है। यह नीति गैर आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से अनावश्यक अन्य देखभाल के शुल्कों पर लागू नहीं होती है।
3. वित्तीय सहायता नीति द्वारा शामिल किए गए प्रदाता की सूची संगठन की सुविधाओं के भीतर देखभाल प्रदाताओं की एक सूची प्रदान करती है जो कि निर्दिष्ट करती है कि किन चीज़ों को वित्तीय सहायता नीति के द्वारा कवर किया जाता है और किन्हें नहीं।

#### परिभाषाएं

इस नीति के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

- “501 (r)” का अर्थ है आंतरिक राजस्व संहिता का अनुभाग 501 (r) और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम।
- “आम तौर पर बिल की गई राशि” या “AGB” का मतलब है, आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के संबंध में, वह राशि जो आमतौर पर उन व्यक्तियों से ली जाती है जिनके पास ऐसी देखभाल को कवर करने वाला बीमा होता है।
- “समुदाय” का अर्थ है Ascension St. Vincent Fishers का प्राथमिक सेवा क्षेत्र, जो विशेष रूप से सीमित नहीं है, हैमिल्टन काउंटी है, जो सेंट्रल इंडियाना में स्थित है। यदि किसी मरीज़ को आवश्यक आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से ज़रूरी देखभाल, किसी अन्य Ascension Health सुविधा में प्राप्त ऐसी ही देखभाल की निरंतरता के रूप में चाहिए और उस सुविधा में मरीज़ ने उस आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्रता प्राप्त की है, तो उस मरीज़ को भी संगठन के समुदाय का सदस्य माना जाएगा।

- “आपातकालीन देखभाल” का अर्थ ऐसी चिकित्सा देखभाल से है जो किसी ऐसी चिकित्सीय स्थिति के उपचार के लिए दी जाती है, जो तीव्र लक्षणों के रूप में प्रकट होती है (जिसमें गंभीर दर्द शामिल है), और जिसकी गंभीरता इतनी हो सकती है कि तत्काल चिकित्सा ध्यान न मिलने पर शारीरिक कार्य करने में गंभीर हानि, किसी अंग या शरीर के भाग में गंभीर विकृति, या व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डालने की संभावना हो सकती है।
- “चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल” का मतलब है ऐसी देखभाल जो (1) मरीज़ की स्थिति की रोकथाम, निदान, या उपचार के लिए उपयुक्त, संगत और आवश्यक हो; (2) मरीज़ की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त सेवा या सुविधा का स्तर हो जिसे सुरक्षित रूप से प्रदान किया जा सके (3) मुख्य रूप से मरीज़, मरीज़ के परिवार, चिकित्सक या देखभाल करने वाले की सुविधा के लिए न दी गई हो; (4) मरीज़ के लिए लाभ देने की संभावना अधिक हो, और हानि होने की संभावना कम हो। भविष्य की निर्धारित देखभाल को “चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल” नियत किए जाने के लिए उस देखभाल को और देखभाल के समय को संगठन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (या पदनामित व्यक्ति) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल का निर्धारण मरीज़ को चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने वाले लाइसेंसधारी प्रदाता द्वारा और, संगठन के स्वविवेक के आधार पर, भर्ती करने वाले चिकित्सक द्वारा, रेफ़र करने वाले चिकित्सक द्वारा, और/या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समीक्षा करने वाले अन्य चिकित्सिक द्वारा (सुझाई जा रही देखभाल के प्रकार के अनुसार) किया जाना चाहिए। यदि इस नीति में कवर किए गए मरीज़ द्वारा अनुरोधित देखभाल को किसी समीक्षा करने वाले चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं निर्धारित किया गया है, तो भर्ती करने वाले अथवा रेफ़र करने वाले चिकित्सक द्वारा उस निर्धारण की पुष्टि की जानी आवश्यक है।
- “संगठन” का अर्थ है *St. Vincent Fishers Hospital, Inc. d/b/a Ascension St. Vincent Fishers*.
- “मरीज़” का अर्थ है वे व्यक्ति, जिन्हें संगठन में आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल प्राप्त होती है और वह व्यक्ति जो मरीज़ की देखभाल के लिए आर्थिक रूप से उत्तरदायी है।

## प्रदत्त वित्तीय सहायता

इस अनुभाग में वर्णित वित्तीय सहायता केवल उन मरीज़ों तक सीमित है जो समुदाय में रहते हैं:

1. इस वित्तीय सहायता नीति के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, जिन मरीज़ों की आय संघीय गरीबी स्तर (“FPL”) के 250% या उससे कम है, वे उन सेवाओं के शुल्क के उस हिस्से पर 100% चैरिटी केयर के लिए पात्र होंगे जिनके लिए मरीज़ बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के बाद उत्तरदायी है, यदि ऐसा मरीज़, प्रकल्पित स्कोरिंग (नीचे अनुच्छेद 5 में बताया गया है) के आधार पर पात्र पाया जाता है या मरीज़ के पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन या उससे पहले वित्तीय सहायता आवेदन (“आवेदन”) जमा करता है और संगठन आवेदन को मंजूरी दे देता है। यदि मरीज़ उसके पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन के बाद आवेदन जमा करता है, तो मरीज़ अधिकतम 100% वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, लेकिन तब इस श्रेणी में मरीज़ के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता की राशि मरीज़ द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राशि तक ही सीमित रहेगी। इस श्रेणी के वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज़ से गणना किए गए AGB शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जाएगी।

2. इस वित्तीय सहायता नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन, ऐसे मरीज़ जिनकी आय FPL के 250% से अधिक लेकिन FPL के 400% से अधिक नहीं है, उन्हें उन सेवाओं के शुल्क के उस हिस्से पर स्लाइडिंग स्केल छूट दी जाएगी, जिनके लिए मरीज़ उत्तरदायी है और जो किसी बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के बाद बकाया हैं, यदि ऐसा मरीज़ अपने पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन से पहले या उसी दिन आवेदन जमा करता है और संगठन द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। यदि मरीज़ उसके पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन के बाद आवेदन जमा करता है, तो मरीज़ स्लाइडिंग स्केल छूट की वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, लेकिन तब इस श्रेणी में मरीज़ के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता की राशि मरीज़ द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राशि तक ही सीमित रहेगी। इस श्रेणी के वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज़ से गणना किए गए AGB शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जाएगी। स्लाइडिंग स्केल छूट इस प्रकार है:

जिन मरीज़ों की आय FPL के 251% से 300% FPL के बीच है, उन्हें 90% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी  
जिन मरीज़ों की आय FPL के 301% से 350% FPL के बीच है, उन्हें 80% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी  
जिन मरीज़ों की आय FPL के 351% से 400% FPL के बीच है, उन्हें 75% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी

3. इस वित्तीय सहायता नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन, जिन मरीज़ों की आय FPL के 400% से अधिक है, वे “साधन जांच” के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। इस जांच के आधार पर, मरीज़ की कुल चिकित्सा देनदारी को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क पर कुछ छूट दी जा सकती है। यदि मरीज़ का कुल चिकित्सीय कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल हेतु Ascension और अन्य किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का चिकित्सीय ऋण शामिल है, जो कि मरीज़ के परिवार की सकल आय के बराबर या उससे अधिक हो, तो ऐसा मरीज़ जीविका साधन जांच के बाद वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। साधन जांच के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का स्तर वही होगा जो ऊपर दिए गए अनुच्छेद 2 के अनुसार FPL के 400% आय वाले मरीज़ को दिया जाता है, बशर्ते कि ऐसा मरीज़ अपने पहले डिस्चार्ज बिल की तारीख से 240वें दिन तक या उससे पहले आवेदन जमा करे और वह आवेदन संगठन द्वारा स्वीकृत हो जाए। मरीज़ साधन जांच छूट के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए उस स्थिति में पात्र होगा यदि वह अपने पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन के बाद आवेदन जमा करता है, लेकिन इस श्रेणी में उपलब्ध वित्तीय सहायता की राशि केवल मरीज़ के खाते में की गई किसी भी भुगतान को ध्यान में रखने के बाद शेष बकाया राशि तक सीमित होगी। इस श्रेणी के वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज़ से गणना किए गए AGB शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जाएगी।
4. यदि किसी मरीज़ को “संपत्ति जांच” के अनुसार यह माना जाता है कि उसके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, तो वह ऊपर दिए गए अनुच्छेद 1 से 3 में वर्णित वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकता है। संपत्ति जांच में, FAP आवेदन में मापी गई संपत्तियों की श्रेणियों के आधार पर मरीज़ की भुगतान करने की क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। जिस मरीज़ की संपत्तियां उसकी FPL राशि के 250% से अधिक हों, वह वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकता है।
5. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता राजस्व चक्र के दौरान किसी भी समय निर्धारित की जा सकती है और उसमें 100% चैरिटी देखभाल निर्धारित करने के लिए मरीज़ के पहले डिस्चार्ज बिल के बाद पहले 240 दिनों के भीतर पर्याप्त बकाया राशि वाले मरीज़ के लिए प्रकल्पित स्कोरिंग सम्मिलित हो सकती है, भले ही मरीज़ ने वित्तीय सहायता आवेदन (“FAP आवेदन”)

भरकर जमा ना किया हो। यदि मरीज़ को FAP आवेदन भरकर जमा किए बिना ही केवल प्रकल्पित स्कोरिंग के आधार पर 100% चैरिटी देखभाल प्रदान की गई हो, तो मरीज़ की वित्तीय सहायता की राशि की पात्रता मरीज़ द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ के अदत्त बकाया राशि तक सीमित रहेगी। प्रकल्पित स्कोरिंग के आधार पर पात्रता का निर्धारण केवल देखभाल के उन प्रसंगों पर ही लागू होता है जिसके लिए प्रकल्पित स्कोरिंग की गई हो।

6. ऐसे मरीज़ के लिए, जो निश्चित बीमा प्लान में भाग लेते हैं, जो संगठन को “नेटवर्क-से-बाहर” माना जाता है, संगठन वित्तीय सहायता को कम कर सकता है अथवा इससे इन्कार कर सकता है, जो मरीज़ की बीमा जानकारी और अन्य उपयुक्त तथ्य और परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर मरीज़ को अन्य प्रकार से उपलब्ध होगी।
7. मरीज़, अस्वीकरण की सूचना प्राप्त होने के चौदह (14) कैलेंडर दिनों के भीतर संगठन में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके वित्तीय सहायता के लिए पात्रता के किसी भी अस्वीकरण के विरुद्ध अपील कर सकता है। अंतिम निर्धारण के लिए संगठन द्वारा सभी अपीलों की समीक्षा की जाएगी। यदि अंतिम निर्णय वित्तीय सहायता के पिछले अस्वीकरण को स्वीकार करता है, तो मरीज़ को लिखित सूचना भेजी जाएगी। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता से संबंधित संगठन के निर्णयों के विरुद्ध मरीज़ों और उनके परिवारों द्वारा अपील करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
  - a. सभी अपीलों लिखित रूप में डाक द्वारा इस पते पर भेजा जाना चाहिए: Ascension St. Vincent, Vice President of Revenue Cycle, PO Box 713441, Chicago, IL 60677-4341.
  - b. सभी अपीलों पर संगठन की वित्तीय सहायता अपीलस कमेटी विचार करेगी, और कमेटी का निर्णय अपील करने वाले मरीज़ या परिवार को लिखित में भेजा जाएगा।

### **वित्तीय सहायता के लिए योग्य न होने वाले मरीज़ों के लिए अन्य सहायता**

मरीज़ जो ऊपर वर्णित अनुसार, वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं, वे संगठन द्वारा दी जाने वाली अन्य किस्म की सहायता के लिए योग्य हो सकते हैं। पूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से, सहायता के इन अन्य प्रकारों को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है, हालाँकि ये आवश्यकता-आधारित नहीं हैं और ये 501(r) के अधीन नहीं हैं, लेकिन इन्हें संगठन जिस समुदाय को सेवा प्रदान करता है, उसकी सुविधा के लिए यहां शामिल किया गया है।

1. अभीमाकृत मरीज़ जो वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं उन्हें उस संगठन के लिए अधिकतम भुगतान करने वाले के लिए प्रदान की जाने वाली छूट के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। अधिकतम भुगतान करने वाले को क्षमता या सकल राजस्व द्वारा मापी गई संगठन की आबादी का कम से कम 3% होना चाहिए। यदि कोई एक भुगतानकर्ता मात्रा के इस न्यूनतम स्तर पर नहीं पहुंचता है, तो एक से अधिक भुगतानकर्ताओं के अनुबंधों का इस प्रकार औसत लिया जाना चाहिए कि भुगतान की अवधि जिसे औसत लेने के लिए उपयोग किया जाता है वह उस वर्ष के लिए संगठन के व्यापार की मात्रा का कम से कम 3% हो।
2. अभीमाकृत और बीमाकृत मरीज़, जो वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं वे शीघ्र भुगतान छूट प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र भुगतान छूट, ठीक पिछले अनुच्छेद में वर्णित अभीमाकृत छूट के अतिरिक्त भी दी जा सकती है।

## **वित्तीय सहायता के लिए योग्य मरीजों हेतु प्रभार पर सीमाएं**

वित्तीय सहायता के लिए योग्य मरीजों से व्यक्तिगत रूप से आपात स्थिति में और चिकित्सकीय तौर पर आवश्यक अन्य देखभाल के लिए AGB से ज्यादा और अन्य सभी चिकित्सीय देखभाल हेतु लिए जाने वाले सकल शुल्क से अधिक प्रभार नहीं लिया जाएगा। संगठन “लुक-बैक” विधि का उपयोग करके एक या अधिक AGB प्रतिशत की गणना करता है, जिसमें Medicare सेवा-हेतु-शुल्क और सभी निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल होते हैं जो संगठन को दावों का भुगतान करते हैं, और यह सब 501(r) के अनुसार किया जाता है। AGB की गणना के विवरण और प्रतिशतों की एक निःशुल्क प्रति संगठन की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है, या किसी भी मरीज पंजीकरण विभाग में जाकर या हमारे ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करके भी प्राप्त की जा सकती है।

## **वित्तीय सहायता और अन्य सहायता के लिए आवेदन करना**

कोई मरीज प्रकल्पित स्कोरिंग योग्यता के माध्यम से या पूर्ण रूप से भरा हुआ FAP आवेदन जमा करके वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करके वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकता है। FAP आवेदन और FAP आवेदन निर्देश संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, या किसी भी मरीज पंजीकरण विभाग में जाकर, या हमारे ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करके डाक के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। संगठन में अबीमाकृत व्यक्ति को वित्तीय परामर्शदाताओं के साथ Medicaid या अन्य सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए काम करना होगा जिसके लिए मरीज वित्तीय सहायता हेतु संभावित रूप से पात्र माना जाता हो (प्रकल्पित स्कोरिंग के माध्यम से पात्र और अनुमोदित निर्धारित होने के मामलों को छोड़कर)। यदि कोई मरीज FAP आवेदन में या प्रकल्पित स्कोरिंग पात्रता प्रक्रिया के संबंध में गलत जानकारी प्रदान करता है, या यदि मरीज बीमा से प्राप्त राशि को सौंपने या उस बीमा कंपनी से सीधे भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को देने से इनकार करता है जो प्रदान की गई देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकती है, या यदि मरीज वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने हेतु Medicaid या अन्य सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने में वित्तीय परामर्शदाता के साथ सहयोग करने से इनकार करता है (सिवाय उन मामलों के जहाँ प्रकल्पित स्कोरिंग के माध्यम से पात्रता निर्धारित और स्वीकृत हो चुकी हो), तो ऐसे मरीज को वित्तीय सहायता से वंचित किया जा सकता है। संगठन देखभाल के वर्तमान मामले के लिए पात्रता के संबंध में निर्धारण करते समय किसी भी पात्रता निर्धारण तिथि से छः माह से कम की अवधि से पहले पूर्ण किए गए FAP आवेदन पर विचार कर सकता है। संगठन किसी भी पात्रता निर्धारण तिथि से छह महीने से अधिक पहले पूरे किए गए FAP आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

## **बिलिंग और वसूली**

भुगतान न करने की स्थिति में संगठन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को एक अलग बिलिंग और वसूली नीति में बताया गया है। बिलिंग और वसूली नीति की एक निःशुल्क प्रति संगठन की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है, या किसी भी मरीज पंजीकरण विभाग में जाकर, अथवा हमारे ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करके डाक के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

## **व्याख्या**

यह नीति, सभी लागू प्रक्रियाओं के साथ मिलकर, 501(r) के अनुपालन के उद्देश्य से है और जहां विशेष रूप से संकेतित न हो, इसे उसी के अनुसार व्याख्यायित और लागू किया जाएगा।

## Ascension St. Vincent Fishers

### वित्तीय सहायता नीति द्वारा शामिल किए गए प्रदाताओं की सूची

10/01/2025

नीचे दी गई सूची यह निर्दिष्ट करती है कि अस्पताल सुविधा में प्रदान की गई आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के कौन-से प्रदाता वित्तीय सहायता नीति (FAP) के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। **कृपया ध्यान दें कि आपातकालीन देखभाल और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल को छोड़कर किसी भी प्रकार की देखभाल FAP के अंतर्गत किसी भी प्रदाता द्वारा कवर नहीं की जाती है।**

#### FAP द्वारा कवर किए गए प्रदाता

#### FAP द्वारा कवर नहीं किए गए प्रदाता

| <u>FAP द्वारा कवर किए गए प्रदाता</u>           | <u>FAP द्वारा कवर नहीं किए गए प्रदाता</u> |
|--|---|
| सभी St. Vincent Medical Group चिकित्सक         | स्टीवन एफ़िल्ड MD                         |
| सभी St. Vincent नियोजित चिकित्सक               | एरिक एटकेन MD                             |
| Indiana Physician Management – Northeast, LLC. | लीला अकानली MD                            |
| फ़्रांसिस्को डेलगाडो MD                        | किर्क अकायडिन MD                          |
| हसन एल्मालिक MD                                | एंड्रयू एल्डेन MD                         |
| ट्रेसी इकर्ड MD                                | मेगन एल्डरमैन MD                          |
| CEP अमेरिका d/b/a Vituity                      | हायमा अल-गवी MD                           |
|  | कृष्णा अमुलुरु MD                         |
|  | स्टैनटन एंगरमेयर MD                       |
|  | डेनियल एनज़लडुआ MD                        |
|  | गैरी आयर्स MD                             |
|  | ब्रायन बैडमैन MD                          |
|  | निहाल बकीर MD                             |
|  | एरन बैलनऑफ़ MD                            |
|  | एलिज़ाबेथ बार MD                          |
|  | एडवर्ड बर्टले MD                          |
|  | जेम्स बास्टनागेल MD                       |
|  | एरिक बेल्ज़ MD                            |
|  | जोनाथन बेनेट MD                           |
|  | अलेक्ज़ेंडर बेरेबी MD                     |
|  | एलिज़ाबेथ बर्ट्सच MD                      |
|  | क्रिस्टीन न्हेंडर DPM                     |
|  | ब्रैडफ़ोर्ड बिचे MD                       |
|  | कार्ली ब्लैकनशिप MD                       |
|  | जेसन ब्लॉकसॉम MD                          |
|  | क्रिस्टन ब्लूम MD                         |
|  | श्रीधर बोला MD                            |
|  | क्रिस्टीन बोलिन MD                        |
|  | बैरेट बूडी MD                             |

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | यारा पाउला कैटोइरा-बॉयल MD |
|  | कैथरीन ब्रंडेज MD          |
|  | मैरी बर्डन DO              |
|  | जेनिफ़र बुश MD             |
|  | गैब्रिएल बट्स DO           |
|  | बेंजामिन कैम्पबेल MD       |
|  | जुआन कार्डेनस MD           |
|  | जोसेट चैम्बरलैन MD         |
|  | जोसेट चैम्बरलैन MD         |
|  | बर्क चेगर MD               |
|  | मरेट क्लाइन MD             |
|  | एरन कोट्स MD               |
|  | नील कोलमैन MD              |
|  | निकोलस कुक MD              |
|  | ब्रायन कॉम्पटन MD          |
|  | माइकल कॉनली MD             |
|  | एंजेला कोरिया MD           |
|  | एलिज़ाबेथ कॉटनगिम MD       |
|  | क्रिस्टोफ़र क्रॉफ़र्ड MD   |
|  | रेन क्रिचलो MD             |
|  | डेविड क्रुक MD             |
|  | टेरेंस कूडाही MD           |
|  | लियो डी'एम्ब्रोसियो MD     |
|  | ब्रेंट डेमर DO             |
|  | पंकजा डैंगल MD             |
|  | फ़्रांसिस्को डेलगाडो MD    |
|  | एंड्र्यू डेनार्डो MD       |
|  | जॉन डेपॉवेल MD             |
|  | डैरिन डिल MD               |
|  | लारिसा डिमित्रोव MD        |
|  | मार्था इर्वेजर MD          |
|  | स्टीफ़न एबरवाइन MD         |
|  | हसन एल्मालिक MD            |
|  | लुइस एस्कोबार MD           |
|  | मोडेसन फ़ेरर MD            |
|  | जॉन फ़ीडरलिन MD            |
|  | डेविड फ़िशर MD             |
|  | चंद्रा फ़्लैक MD           |
|  | चार्ल्स फ़्लेमिंग MD       |
|  | व्हिटनी फ़्रेज़ MD         |

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | ब्रेंडन फ्रैंक MD         |
|  | जेना फ्रिट्श MD           |
|  | अंजलि गोदाम्बे DO         |
|  | लॉरा गूड DDS              |
|  | कल्याण गोरंटला MD         |
|  | रॉय गॉटलीब DO             |
|  | डेविड ग्रेबिल MD          |
|  | एनी ग्रीस्ट MD            |
|  | हितेश गुलिया DO           |
|  | जेनिफ़र हद्दाद MD         |
|  | क्रिस्टीना हाजेव्स्की MD  |
|  | ब्रेंडन हार्डस्टी MD      |
|  | चार्ल्स हैस्ब्रुक MD      |
|  | रॉबर्ट हैस्टिंग्स MD      |
|  | फ़ादी हायक MD             |
|  | एन हेडरमैन MD             |
|  | डेविड हेड्रिक MD          |
|  | डेविड हेल्ड MD            |
|  | स्टीवन हर्बस्ट MD         |
|  | अमरीलिस हेरडिया MD        |
|  | कैरोलिन हरमन MD           |
|  | क्रेग हरमन MD             |
|  | जेफ़्री हिलबर्न MD        |
|  | जेम्स हॉफ़मैन MD          |
|  | एरिक हॉर्न MD             |
|  | डगलस हॉर्टन MD            |
|  | जैमी हाउवेल MD            |
|  | ट्रेसी इकर्ड MD           |
|  | एरिक इनमैन MD             |
|  | लिया जेमिसन MD            |
|  | जोसेफ़ जारेस MD           |
|  | जेम्स जेरेट MD            |
|  | श्रीधर जाटला MD           |
|  | थियोडोर जेनरमैन MD        |
|  | डेविड जोसेफ़सन MD         |
|  | एडम जुएर्सिविच MD         |
|  | सारा कानन DO              |
|  | केंद्र करनर DO            |
|  | अर्जु करामान गोनूलालान MD |
|  | पैट्रिक के MD             |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | काँस्मस केयस MD             |
|  | साद खैरी MD                 |
|  | अनमोल खरबंदा MD             |
|  | सुन्हा किम-डोरांटेस MD      |
|  | कैथरीन किंग MD              |
|  | जेराल्ड किर्क MD            |
|  | केविन किर्टले MD            |
|  | डैनियल क्लिंक MD            |
|  | अलेक्ज़ेंडर कोकिनी MD       |
|  | केविन लाई MD                |
|  | डेविड लैसबरी MD             |
|  | वार्रन लॉलेस DO             |
|  | एरन लेग्रैंड MD             |
|  | डैनियल लीस MD               |
|  | अल्बर्ट ली MD               |
|  | चार्ल्स लर्नर MD            |
|  | मैग्दालेना लेवांडोव्स्का MD |
|  | लॉरेंस लॉयड DPM             |
|  | एमिली लो MD                 |
|  | जॉन लूसिया MD               |
|  | एडम ल्यॉन MD                |
|  | अश्विन रेड्डी माडुपु MD     |
|  | इरविन मालामेंट DPM          |
|  | फ़िलिस मार्लर MD            |
|  | एनी मारनोचा MD              |
|  | विने मथावन MD               |
|  | शैनन मैकाना MD              |
|  | एंड्र्यू मैकडैनियल MD       |
|  | एलन मैकगी जूनियर MD         |
|  | एमिली मायर MD               |
|  | ग्रेग मेरेल MD              |
|  | जुलियाना मेयर MD            |
|  | एलेक्स मेयर्स MD            |
|  | डैनियल मिल्टन MD            |
|  | रिचर्ड मियामोटो MD          |
|  | जीन-पियरे मोबासर MD         |
|  | कुडमिल मोहन MD              |
|  | मिनाक्षी मोहंती MD          |
|  | अमांडा मॉरिस MD             |
|  | जॉन मॉर्टन MD               |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | मेलिंडा ममफ़ोर्ड-डॉडी MD |
|  | वेंकटेश नागरेड्डी MD     |
|  | रेमंड नान्को MD          |
|  | मिशेल नेफ़ MD            |
|  | जोशुआ न्यूक्स MD         |
|  | शानी नॉरबर्ग MD          |
|  | एलिज़ाबेथ नोवाकी DO      |
|  | क्रिस्टीन ओक्ले MD       |
|  | एंड्र्यू ओबर्लिन MD      |
|  | ब्रैडली ऑरिस MD          |
|  | जॉन ओशरविट्ज़ MD         |
|  | फ़्रांसिस्को पेड्रोण MD  |
|  | जेफ़्री पाउलोस्की MD     |
|  | रिचर्ड पेन MD            |
|  | ट्रॉय पेनर MD            |
|  | सेबास्टियन पियर्स MD     |
|  | प्रवीण पर्नी MD          |
|  | जोडी पेट्स MD            |
|  | रोनाल्ड पिनीकी MD        |
|  | क्रिस्टोफ़र पोमेरॉय MD   |
|  | स्टीवन पोर्टो DO         |
|  | एरिक पॉट्स MD            |
|  | मिस्टि प्रैट DDS         |
|  | रॉबर्ट क्वाइरी MD        |
|  | मार्क रफ़ाल्को MD        |
|  | वॉचरासन रत्नानन MD       |
|  | नरहरिसेट्टी राउ MD       |
|  | डेनिस रेहफ़स MD          |
|  | चैड रीचर्ड MD            |
|  | जेरेमी रेमस MD           |
|  | केनेथ रेंकेन्स MD        |
|  | रिचर्ड रिंक MD           |
|  | रिचर्ड रॉजर्स MD         |
|  | रियान रॉसेस MD           |
|  | जोसेफ़ रूमर MD           |
|  | डैनियल सहलाइन MD         |
|  | कार्ल सार्टोरियस MD      |
|  | अनुराग सत्संगी MD        |
|  | एंड्र्यू शुबेक MD        |
|  | कैथलीन शूस्टर MD         |

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | ग्लेन श्वेक MD         |
|  | सिंधिया सेफ़र्निक MD   |
|  | माइकल सर्मरशाइम MD     |
|  | इमरान सेठी MD          |
|  | शोएब शफ़ीक MD          |
|  | डोनिया शेख MD          |
|  | एमी शापिरो MD          |
|  | किम्बर्ली शॉर्ट MD     |
|  | जोसेफ़ स्मकर MD        |
|  | कैथरीन सोसेक MD        |
|  | जेफ़री सोल्डैटिस MD    |
|  | विलियम सॉमरसेट DO      |
|  | जैकब स्प़ंगर MD        |
|  | एंजेला स्टीवंस MD      |
|  | स्टीफ़न स्टिटल MD      |
|  | रामइंद्रजीत सूफ़ी MD   |
|  | निर्मल सुर्तानी MD     |
|  | शॉन स्वान MD           |
|  | पॉल ज़ोटेक MD          |
|  | माइकल थिकेन MD         |
|  | गारेट थिएल MD          |
|  | निहारिका थोटा MD       |
|  | जूली टिलमैन MD         |
|  | रॉन टिटनर MD           |
|  | माइकल टॉम्लिन MD       |
|  | थॉमस ट्रांसिक MD       |
|  | एंड्र्यू ट्रांब्रिज MD |
|  | जैनेट टर्कल MD         |
|  | जेफ़्री उलरिच MD       |
|  | लीक्ना उंग DPM         |
|  | एना वाज़क्वेज DMD      |
|  | रियान वेनिस MD         |
|  | जॉर्ज वेस्टरमार्क MD   |
|  | एंड्र्यू वोगलर MD      |
|  | जोहना वॉलिसा MD        |
|  | डैन वैक्समैन MD        |
|  | जोसेफ़ वेबस्टर MD      |
|  | लॉरी वेल्स MD          |
|  | जोसेफ़ व्हेलन MD       |
|  | फ़िलिप व्हिटली MD      |

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | थॉमस व्हिटेन MD         |
|  | स्टीवन विलिंग MD        |
|  | एडवर्ड विल्स MD         |
|  | स्टीवन वाइज़ MD         |
|  | अनिल यरुमी MD           |
|  | अलेक्जेंडर ज़ेम्टसोव MD |